



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24—मार्च 30, 2012 (चैत्र 4, 1934)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24 —MARCH 30, 2012 (CHAITRA 4, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. ए. 22011/1/2011-पीएमई--श्री जगदीश प्रसाद आर्य, संयुक्त निदेशक (रा.भा.) का महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान (एमजीआईसीसी), भारत का उच्चायोग, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिडाड एण्ड टोबेगो में निदेशक के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप, उन्हें दिनांक 29.2.2012 (अपराह) से प्रधान मंत्री कार्यालय में उनके पदभार से मुक्त किया जाता है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 6 मार्च 2012

सं. ए. 22012/02/2012-पीएमए--राष्ट्रपति, श्री विक्रम मिश्री, आईएफएस (1989) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 6 मार्च, 2012 (अपराह) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव नियुक्त करती है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं. ए. 22012/02/2012-पीएमए--श्री पंकज सरण, आई.एफ.एस. (1982) की बंगलादेश में भारत के उच्चायुक्त के पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 6 मार्च, 2012 (अपराह) से प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2012

सं. आरएस.3/1(3)/2012/12-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निदेशक श्री मुकुल पाण्डे को 2 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड-4 + 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन में और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ तदर्थ आधार पर संयुक्त सचिव के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री पी. पी. के. रामार्चयुलु, जिन्हें पहले दिनांक 15 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. आर.एस.3/1(3)/2011/54-कार्मिक के अंतर्गत तदर्थ

आधार पर संयुक्त सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था को 2 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अब उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

3. उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा संयुक्त सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवाओं की उस ग्रेड में वरीयता और अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 12 मार्च 2012

सं. आर.एस.3/1(1)/2012/15-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक श्री अनिल कुमार गांधी को 9 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 + 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन में और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ तदर्थ आधार पर निदेशक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जिन्हें पहले दिनांक 16 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. आर.एस.3/1(1)/2010/112-कार्मिक के अंतर्गत तदर्थ आधार पर निदेशक के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था को 9 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अब उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

3. उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा निदेशक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवाओं की उस ग्रेड में वरीयता और अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560231, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. 5/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	के. जे. मुरलीधर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
2.	के. श्रीनिवासमूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
3.	डी. पी. शर्मा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
4.	पी. प्रकाश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
5.	एस. एम. मुनिराजा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
6.	राजेश्वरी पी. एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
7.	एच. एस. मंजुनाथ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
8.	एम. नीलवथी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
9.	सुब्रमण्या	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
10.	देवदास शेणै वाई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
11.	एल. सुवर्ण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
12.	एस. गणेशन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	संध्या योगी	01.08.2011
2.	अब्दुल हफीज़ सैयद	01.08.2011
3.	एच. सी. शशिधर	01.08.2011
4.	अम्बती जनार्दन रेड्डी	01.08.2011
5.	हुसैन बाषा खानभाई	01.08.2011
6.	बी. संध्या रेड्डी	02.08.2011
7.	पायल अग्रवाल	02.08.2011
8.	बालकृष्ण महाराणा	03.08.2011
9.	थोय श्रीकांत	03.08.2011
10.	प्रभु सी.	03.08.2011
11.	थमीमुन्नीशा एम.	03.08.2011
12.	मलया रंजन सतपथी	03.08.2011
13.	कविता एस.	03.08.2011
14.	कलासागर वर्मा कन्दुकुरी	03.08.2011
15.	एम. वी. चन्द्रशेखर	03.08.2011

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
16.	वी. एस. बसवंथ ओरुगंटी	03.08.2011
17.	मारिया शालिनी वी.	03.08.2011
18.	मोहमद फैजुद्दीन फरुक्वी एम.ए.एफ.	03.08.2011
19.	एस. सतीश कुमार	03.08.2011
20.	जी. जनार्दन रेड्डी	03.08.2011
21.	संतोष बसवराजु	03.08.2011
22.	आई. प्रसन्ना कुमार	04.08.2011
23.	शिव आशीष सिंह टी.	04.08.2011
24.	चन्द्रप्रभा कृष्णस्वामी	08.08.2011
25.	मोहम्मद हसन	08.08.2011
26.	सूर्य रत्ना प्रकाश डुम्पा	08.08.2011
27.	रवि प्रकाश आत्रेय	08.08.2011
28.	मनदीप किरण	08.08.2011
29.	शांतनु सोमवंशी	08.08.2011
30.	कंदेपी राधिका	08.08.2011
31.	सरिता कुमारी टी. आर.	08.08.2011
32.	गणेश के.	08.08.2011
33.	कैथा राजय्या	08.08.2011
34.	उमेश स्वामी	08.08.2011
35.	कल्पना समल	08.08.2011
36.	अरविन्द्रम पी	08.08.2011
37.	अनूप एस.	08.08.2011
38.	बिजय रहा	09.08.2011
39.	भावना शर्मा	09.08.2011
40.	मनिश वर्मा	09.08.2011
41.	डॉ. अर्जुन डे	09.08.2011
42.	शिबु सहा	09.08.2011
43.	नरेश कुमार	09.08.2011
44.	इंद्रानी सोम	09.08.2011
45.	सतीश कुमार पी.	17.08.2011
46.	वी. एस. अम्मण्णाराव सीपना	18.08.2011

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
47.	राहुल कुमार	22.08.2011
48.	प्रदीप कुमार	29.08.2011
49.	वेंकट सिता रामन पुरम	02.09.2011
50.	वंशी कृष्णा वेलिडी	05.09.2011
51.	स्मिती मैनी	09.09.2011
52.	सौम्या जे.	14.09.2011
53.	मोनिका महाजन	14.09.2011
54.	वी. हरि रोहित	21.09.2011
55.	आयुश केजरीवाल	21.09.2011
56.	लालजी चन्द्र	22.09.2011
57.	अंकित कुमार सिंह	23.09.2011
58.	पराग विजयराज पाठक	23.09.2011
59.	विनीथ जान अलेक्स डी 'सोज़ा	03.10.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों व अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	एस. रामस्वामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	31.08.2011
2.	एच. भोजराज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	31.08.2011
3.	प्रेमा हरिदास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	30.09.2011
4.	राम कृष्ण प्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	30.09.2011
5.	डी. जी. राजण्णा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	30.09.2011
6.	के. टी. रामप्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	31.10.2011
7.	एम. सुधाकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	30.11.2011
8.	के.एस.पी. सुबुधी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	30.11.2011
9.	जी. ए. कुमार	वरिष्ठ प्रधान क्रय व भंडार	30.11.2011
10.	आर. अजित कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	30.11.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.सी का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	विश्व प्रकाश ए	19.07.2011
2.	रिस्सेन आल्फान्सो जोसेफ	23.08.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मार्च 2012

सं. 193/22/12/2010 (टी के डी)--भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 11.01.2011 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में श्री तपन कुमार दत्ता, अनुभाग अधिकारी, दिनांक 28.02.2011 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अजय कुमार, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2012

सं. ए. 12025/2/2012-प्रशा.-I (वि.वि.)--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति सहर्ष, श्री वाई. श्रीनिवास राव, अधीक्षक (विधि), विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-IV) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड-3 और रुपए 6,600/- के ग्रेड वेतन में विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में 24 फरवरी, 2012 की अपराह्न से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री वाई. श्रीनिवास राव सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा ग्रेड-IV), अपनी नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर रहेंगे।

संजय सिंह, संयुक्त सचिव
एवं विधायी परामर्शी (प्रशासन)

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2011

सं. ए-32013/07/2010-प्रशा. IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, वर्तमान में इस विभाग में तदर्थ आधार पर उपनिदेशक (रा.भा.) के पद पर कार्यरत श्रीमती मुमताज जहां, नियमित सहायक निदेशक (रा.भा.) को राजभाषा विभाग के दिनांक 14.2.2011 और 2.5.2011 के आदेश सं. 5/8/2010-

ओ.एल.(एस.) के अनुसरण में दिनांक 1.7.2010 के पूर्वाह्न से इस विभाग में वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन सहित नियमित आधार पर उपनिदेशक (रा.भा.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आशा सोय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. ए-38012/07/2011-प्रशा. IV (वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्रीमती जसबीर बेदी, प्रधान निजी सचिव दिनांक 29 फरवरी, 2012 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

गणेशदत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. 14046/273/2002-यू टी एस-II--राष्ट्रपति, दिनांक 5 अप्रैल, 2010 की समसंख्यक अधिसूचना, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण व दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री ए. ए. सिद्दीकी, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो गए थे, को रद्द करती हैं। श्री ए. ए. सिद्दीकी को आगामी आदेशों तक सरकारी सेवा में सेवारत माना जाएगा।

ए. के. दास, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2012

शुद्धिपत्र

सं. आई 14011/23/2011-आई पी एस 1--अधिसूचना संख्या I-14011/23/2011-IPS.I(II) दिनांक 28.12.2011 का अधिग्रहण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि चयन सूची 2008 ए एवं 2009 को इस प्रकार से पढ़ा जाए :--

चयन सूची 2008 ए

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	एस सुरेन्द्रन	20.05.1961
2.	ए. वी. जॉर्ज	24.03.1962
3.	एस. ससीकुमार	30.05.1956

चयन सूची 2009

श्री वी. सी. मोहनन	30.11.1956
--------------------	------------

2. उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय केरल उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं. 2734/2011 के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

3. अधिसूचना संख्या-1-14011/23/2011-IPS-I दिनांक 18.01.2012 को वापिस लिया जाता है।

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. आई 14011/20/2011-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 28.02.2012 को चयन समिति की दिनांक 11.11.2011 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2008-ए और 2009 की उन चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग में वर्ष 2012 में 3 एवं 4 कुल 7 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु महाराष्ट्र पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची 2008 ए

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.# पी. बी. सावंत		25.01.1962
2. एम. के. भोंसले		16.06.1962
3. पी. वी. देशपाण्डेय		19.10.1960

#क्रम सं. 1 पर दिए गए नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यधीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

चयन सूची 2009

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
0A#@ पी. बी. सावंत		25.01.1962
1. एम. बी. तौंबडे		07.06.1961
2. एस. आर. दीघावकर		27.09.1958
3. जे. वी. जाधव		02.09.1964
4. ए. आर. शिन्दे		15.07.1965

#क्रम सं. 0ए पर दिए गए नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यधीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

@क्रम सं. 0ए पर उल्लिखित नाम को, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(5) के दूसरे परन्तुक के अनुसरण में चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त सूची में शामिल किया गया है।

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. आई 14011/20/2011-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत महाराष्ट्र संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची 2008-ए

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1. एम. के. भोंसले		16.06.1962
2. पी. वी. देशपाण्डेय		19.10.1960

चयन सूची 2009

	सर्वश्री	
1. एम. बी. तौंबडे		07.06.1961
2. एस. आर. दीघावकर		27.09.1958
3. जे. वी. जाधव		02.09.1964
4. ए. आर. शिन्दे		15.07.1965

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

बलदेव राज, अवर सचिव

दिनांक 14 मार्च 2012

सं. आई 14011/19/2011-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 23.02.2011 को चयन समिति की दिनांक 28.12.2011 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2009 और 2010 की उन वर्षवार चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडु संवर्ग में क्रमशः 3 एवं 9 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु तमिलनाडु पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची 2009

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1. जी. सम्पथ कुमार		06.05.1963
2. जेड. एनी विजया		18.11.1969
3. एम. साधियाप्रिया		07.02.1973

चयन सूची 2010		
क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्व/श्री	
1.	एस. वी. कुरुप्पासामी	15.06.1956
2.	एस. मल्लिका	14.03.1969
3.	बी. समून्देश्वरी	01.05.1974
4.	एस. लक्ष्मी	18.02.1972
5.	एस. राजेश्वरी	15.09.1971
6.	एम. पांडियन	27.03.1963
7.	एस. राजेन्द्रन	25.04.1967
8.	एम. एस. मुथुसामी	28.02.1964
9.	एन. एम. मायिलवाहनन	16.05.1966

2. उपर्युक्त चयन सूचियाँ एस. एल. पी. सं. 2459/2006 (टी. वेनमथी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य) के परिणाम के अध्वधीन होंगी।

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. आई 14011/19/2011-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत तमिलनाडु संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची 2009		
क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	जी. सम्पथ कुमार	06.05.1963
2.	जेड. एनी विजया	18.11.1969
3.	एम. साधियाप्रिया	07.02.1973

चयन सूची 2010		
	सर्वश्री	
1.	एस. वी. कुरुप्पासामी	15.06.1956
2.	एस. मल्लिका	14.03.1969

1	2	3
3.	बी. समून्देश्वरी	01.05.1974
4.	एस. लक्ष्मी	18.02.1972
5.	एस. राजेश्वरी	15.09.1971
6.	एम. पांडियन	27.03.1963
7.	एस. राजेन्द्रन	25.04.1967
8.	एम. एस. मुथुसामी	28.02.1964
9.	एन. एम. मायिलवाहनन	16.05.1966

2. उपर्युक्त नियुक्तियाँ एस. एल. पी. सं. 2459/2006 (टी. वेनमथी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य) के परिणाम के अध्वधीन होंगी।

3. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मार्च 2012

सं. I-18011/03/2012-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के कर्नाटक संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लेखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तिथि
1.	श्री अनुपम अग्रवाल, भा.पु.से. (कर्नाटक:2008)	01.09.2010
2.	श्री राम निवास सेपत, भा.पु.से. (कर्नाटक:2008)	01.09.2010
3.	श्री बोरालिंगैया, भा.पु.से. (कर्नाटक:2008)	22.12.2010
4.	श्री अजय हिलोरी, भा.पु.से. (कर्नाटक:2008)	01.09.2010
5.	श्रीमती रोहिणी कटोच, भा.पु.से. (कर्नाटक:2008)	22.12.2010

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2012

शुद्धिपत्र

सं. 14015/03/2011-अ.भा.से.-I--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी किए गए दिनांक 10 फरवरी, 2012 के आदेश संख्या 14015/03/2011-अ.भा. से.-I में आंशिक आशोधन करते हुए चयन सूची 2008ए में

क्रम संख्या 07 में अधिकारी का नाम "श्री इमादुल हक" के स्थान पर "ईमदादुल हक" पढ़ा जाए तथा चयन सूची 2009 में क्रम संख्या "03" "श्री रमेश चौ. जैन" के स्थान पर "श्री रमेश च. जैन" पढ़ा जाए।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/15/2011-अ.भा.से.-I-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चयन सूची वर्ष 2009ए (2009 की रिक्तियों पर, चयन सूची वर्ष 2010 (2010 की रिक्तियों पर) की रिक्तियों के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत मणिपुर संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 22.12.2011 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत 10.02.2011 को अनुमोदित की गई मणिपुर संवर्ग के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं:-

प्रवर सूची 2009 ए (वर्ष 2009 की रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	आर. एच. गोनमई (अ.ज.जा.)	01.03.1955
2.	थ. गोपेन मेतई	01.03.1960

प्रवर सूची 2010 (वर्ष 2010 की रिक्तियों पर)

(सर्वश्री)		
1.	एच. ज्ञान प्रकाश	29.07.1966
2.	के रघुमणि सिंह	01.02.1963
3.	टी. रणजीत सिंह	01.02.1964
4.*	एथम मुईया (अजजा)	17.03.1959
5.	मरनचान लुईखाम (अजजा)	14.11.1958
6.	एम. हरिकृष्णा	03.12.1964
7.	एम. जोय सिंह	01.01.1965
8.	एम. येसकुल मेइती	10.04.1964
9.	बॉबी वाईखॉम	12.10.1964
10.	श्रीमती लिमनईकिम सिंगसन (अजजा)	30.06.1958
11.	लुनमिन्थांग हाओकीप (अजजा)	01.03.1958
12.	एस. मीनलियनथांग वाईपेई (अजजा)	13.07.1956

* क्रम सं. 4 में नाम अंतरिम रूप से शामिल किया गया है जो राज्य सरकार से सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के अध्यक्षीन है।

2. चयन समिति की अनुशंसाएं माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दर्ज 1997 की सी.आर. सं. 201 के परिणामस्वरूप रिट याचिका 2002 की 494 के अध्यक्षीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/03/2011-अ.भा.से.-I-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत राज्य सरकार के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रवर सूची वर्ष 2009 ए (2009 की रिक्तियों पर चयन सूची वर्ष 2010 (2010 की रिक्तियों पर) की रिक्तियों के लिए मणिपुर संवर्ग राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को अगले आदेश तक परिवीक्षा पर, नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उन्हें मणिपुर संवर्ग आवंटित करते हैं।

प्रवर सूची 2009 ए (वर्ष 2009 की रिक्तियों पर)

क्र. सं.	नाम
(सर्वश्री)	
1.	आर. एच. गोनमई (अ.ज.जा.)
2.	थ. गोपेन मेतई

प्रवर सूची 2010 (वर्ष 2010 की रिक्तियों के लिए)

(सर्वश्री)	
1.	एच. ज्ञान प्रकाश
2.	के रघुमणि सिंह
3.	टी. रणजीत सिंह
4.	मरनचान लुईखाम (अजजा)
5.	एम. हरिकृष्णा
6.	एम. जोय सिंह
7.	एम. येसकुल मेइती
8.	बॉबी वाईखॉम
9.	श्रीमती लिमनईकिम सिंगसन (अजजा)
10.	लुनमिन्थांग हाओकीप (अजजा)
11.	एस. मीनलियनथांग वाईपेई (अजजा)

2. चयन समिति की अनुशंसाएं माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दर्ज सी.आर. सं. 1997 का 201 के परिणामस्वरूप रिट याचिका 2002 की 494 के अध्यक्षीन हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2012

सं. 13017/44/2011-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा असम, मेघालय एवं राजस्थान की सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री इंद्रजीत सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (असम-मेघालय : 10) का, सुश्री नेहा गिरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान : 10) के साथ विवाह होने के आधार पर असम-मेघालय संवर्ग से राजस्थान संवर्ग में स्थानांतरण करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2011

सं. क्यू/जीए/576/1/2012--भारत सरकार ने केप टाउन स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्यालय को भारत के प्रधान कौंसलावास, केप टाउन के रूप में पुनर्नामित किया है :

केंद्र का नाम	पुनर्नामित किए जाने की तारीख/महीना/वर्ष
भारत का प्रधान कौंसलावास, केप टाउन	1 जनवरी, 2011

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त मिशन/केंद्र से संबंधित पत्राचार "द्वारा राजनयिक थैला अनुभाग, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011" को संबोधित किया जाए।

अमित एस. तेलंग, अवर सचिव

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2012

सं. ए-19011/5/2011-पीए--उनकी सेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने के परिणामस्वरूप, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में उप-सचिव, श्री एम. सत्य बाबू 29 फरवरी, 2012 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

नेहजामांग सिमटे, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थापनाएं

सं. 43/2011फा. सं. ए-38012/2011-प्रशा.II--राष्ट्रपति सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्री यू. राजाराम, उपायुक्त, सीमा शुल्क, चेन्नई की दिनांक 31.12.2011 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

आर. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 3/2012-(एफ सं. ए-38012/28/2011-प्रशा.II)--राष्ट्रपति सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्री एच. एम. सचदेव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), जामनगर की दिनांक 01.02.2012 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

आर. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. 04/2012-(फा. सं. ए-39012/09/2011-प्रशा.II)--राष्ट्रपति भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) से श्री विलास एस. भोस्कर, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, एन.सी.एच. मुम्बई, की दिनांक 02.12.2011 (अपराह्न) से तकनीकी सेवानिवृत्ति स्वीकार करते हैं।

आर. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2012

सं. 3/2012 (फा. सं. ए-19013/32/2011-प्रशासन-1क)--व्यय विभाग, सी ए एस के दिनांक 23 नवम्बर, 2011 के का. ज्ञा. सं. ए. 12025/1/2008-सी.ए.एस. और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.10.2011 के का. ज्ञा. सं. 4/6/2011-सी एस-II (ए) के अनुसरण में राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के श्री संजीव कुमार, आशुलिपिक ग्रेड-"ग" (तदर्थ निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न) को दिनांक 16.11.2011 (पूर्वाह्न) से राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में चयन सूची वर्ष, 2006 हेतु केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभागीय परीक्षा कोट में नियमित आधार पर आशुलिपिक ग्रेड "क एवं ख" (विलयीकृत) (निजी सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. 19 (फा. सं. ए-19011/5/2012-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, सुश्री हरमीत एस. सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 84) को दिनांक 21.02.2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपये (पी बी-4) के वेतन बैंड में राजस्व विभाग के अंतर्गत संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 मार्च 2012

सं. 20 (फा.सं. ए-38014/10/2011-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री एस. सी. सचदेवा, अधिवर्धिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 29.02.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी, 2012

सं. ए-22011/1/2012-प्रशा.-1ए--राष्ट्रपति, श्री देवेन्द्र सिंह (भा. आ.से. : 86) को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 07.02.2012 (पूर्वाह्न) से अपर आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 2 मार्च 2012

शुद्धि-पत्र

सं. ए-22011/1/2012-प्रशा.-1ए--भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की 15 फरवरी, 2012 की अधिसूचना में (अंग्रेजी पाठ में) "Shri Devendra Singh (IES:86)" के स्थान पर "Shri Devender Singh (IES:86)" पढ़ा जाए। अधिसूचना की अन्य सभी बातें अपरिवर्तित रहेंगी।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मार्च 2012

सं. ए-12011/10/2009-प्रशासन-II--राष्ट्रपति निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारतीय कारपोरेट विधि सेवा

(पीबी-3, रुपए 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपए) के कनिष्ठ समयमान (वर्ग 'क') के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	(श्री/श्रीमती/सुश्री)	
1.	डेनिंग के. बाबू	19.12.2011
2.	संदीप कुमार गर्ग	19.12.2011
3.	प्रशान्त बलियान	19.12.2011
4.	कृष्ण कांत उपाध्याय	19.12.2011
5.	अनु सिंह	19.12.2011
6.	अनिल यादव	19.12.2011
7.	तंगडकर दीपिका कार्तिक	29.12.2011
8.	अरुण प्रसाद एम.	19.12.2011
9.	अमन गुप्ता	19.12.2011
10.	विवेक एच. पी.	29.12.2011
11.	शत्रुघ्न चौहान	29.08.2011

2. उपर्युक्त नियुक्ति, नियुक्ति प्रस्ताव, नियुक्ति आदेशों, प्रस्तावों/आदेशों के भूल सुधार, भर्ती नियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों के नियमों में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है।

आर. के. पाण्डे, अवर सचिव

सं. ए-12011/11/2008-प्रशासन-II--राष्ट्रपति निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (पीबी-3, रुपए 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपए) के कनिष्ठ समयमान (वर्ग 'क') के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	(श्री/श्रीमती/सुश्री)	
1.	इमरान अहमद सिद्दीकी	29.08.2011
2.	पट्टनशेट्टी रवि सुभाष	19.12.2011
3.	शोभित श्रीवास्तव	19.12.2011
4.	चौहान योगिनी दिनकर	19.12.2011
5.	शिंडे अमोल भगवान	19.12.2011
6.	लता सिसोदिया	19.12.2011
7.	मुकेश कुमार सोनी	19.12.2011

2. उपर्युक्त नियुक्ति, नियुक्ति प्रस्ताव, नियुक्ति आदेशों, प्रस्तावों/आदेशों के भूल सुधार, भर्ती नियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों के नियमों में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है।

आर. के. पाण्डे, अवर सचिव

दिनांक 2 मार्च 2012

शुद्धि-पत्र

दिनांक 31 अक्तूबर, 2011 को कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 को 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के तहत जारी अधिसूचना संख्या पीएफजी (541)/96-प्रशासन-II का संदर्भ ले, उक्त धारा 209-क के प्रयोजनार्थ क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय (दक्षिण पूर्व क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय हैदराबाद में उप निदेशक का नाम श्री पी. सी. नंद कुमार के स्थान पर श्री पी. सी. नंदा कुमार, उप निदेशक, पढ़ा जाए।

आर. के. पाण्डे, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2012

सं. ए-38013/1/2012-संवर्ग--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दी गई तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :--

क्र. सं. एल. सं.	नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि	अधिवर्षिता की तिथि
1. 4155	श्री अशीम बोस, उप सचिव	03.02.1952	29.02.2012
2. --	श्री अश्विनी कुमार गुप्ता, अनुभाग अधिकारी	01.03.1952	29.02.2012

संजय शंकर, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. 03/2012 (फा.सं. 6/2528/2010/पीईएन/एचआरडी-I/779)-- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय में कार्यरत श्री जय प्रकाश, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (सीएसएस) 29.02.2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

जी. ए. रेड्डी, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

एस. बिष्ट, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार (सीएसएस) 29.02.2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

जी. ए. रेड्डी, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

दिनांक 1 मार्च 2012

सं. 05/2012 (फा.सं. 6/2583/2011/पीईएन/एचआरडी-I/749)-- इस कार्यालय में उप महानिदेशक, विदेश व्यापार (सीएसएस) श्री डी. द्वारकानाथ ने 01.03.2012 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है।

जी. ए. रेड्डी, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2012

सं. ए-45011/04/2006-स्था.-I--राष्ट्रपति, अनुभाग अधिकारी ग्रेड संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2006 के परिणाम के आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नामित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री अनुज कुमार को 24.02.2012 से अगले आदेशों तक चयन सूची वर्ष 2006 (रैंक सं. 16) के लिए नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :--

2. श्री अनुज कुमार की अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अध्वधीन है :--

- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ ए सं. 1083/2007 एम ए सं. 1171/2007 तथा 2011 का एम ए
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में श्री ए. के. नंदी तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ ए सं. 2136/2010
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में श्री विकास त्रिपाठी तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ ए सं. 2469/2010
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में श्री ए. प्रकाश तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ ए सं. 1253/2009
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में श्री प्रदीप कुमार मंडल बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ ए सं. 2584/2011 तथा एम ए सं. 1987/2011

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2012

सं. ए-12011/2/2012-स्था.--राजभाषा विभाग के दिनांक 10 फरवरी, 2012 के का.आ. सं. 5/15/2011-रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवादक

सं. 04/2012 (फा.सं. 6/2356/2005/पीईएन/एचआरडी-I/764)-- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय में कार्यरत श्री आर.

श्रीमती शोभना श्रीवास्तव को वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में दिनांक 13.02.2012 पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. सहायक निदेशक (रा.भा.) के ग्रेड में श्रीमती शोभना श्रीवास्तव की नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और यह उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा सहायक निदेशक के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2012

सं. ए-19011/1/2012-स्था.--राष्ट्रपति, श्री अरुण अग्रवाल, भारतीय दूरसंचार सेवा (1991) को रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में निदेशक के पद पर दिनांक 10 फरवरी, 2012 के पूर्वाह्न से 5 वर्षों की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

आर. के. कुरील, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2012

सं. ए-12025/7/2009-रा.प्रो.शा.(स्था.)--राष्ट्रपति जी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में श्री योगेश सिंह को, दिनांक 21 फरवरी, 2012 पूर्वाह्न से, पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- में वैज्ञानिक एस. बी. (इलैक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2012

सं. ए-12011/4/2011-स्था.--मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, श्री रमेश अभिषेक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बी एच:82) सदस्य, वायदा बाजार आयोग को सौंपे गए वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त प्रभार को 01 फरवरी, 2012 से 08.07.2012 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, जारी रखने का अनुमोदन प्रदान करती है।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 फरवरी 2012

सं. 17013/07/2007-आईएफएस-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में

निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने जम्मू और कश्मीर राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए 28.10.2011 को हुई चयन समिति की बैठक में तैयार की गई चयन सूची 2006ए, 2007, 2008 और 2009 के लिए चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति कोट रिक्तियों को भरने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य वन सेवा के निम्नलिखित नाम शामिल हैं :--

2006ए की चयन सूची

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
0A *	अजाज अहमद भट्ट	15.05.1954
1.	गुलज़ार हुसैन रंगरेज	15.01.1952

*क्र.सं. 0ए में दिया गया नाम राज्य सरकार द्वारा सत्य निष्पक्ष प्रमाण-पत्र के दिए जाने अध्यक्षीन अनंतिम रूप से शामिल किया गया है। उन्हें चयन सूची में अतिरिक्त रूप से शामिल किया जाता है।

2007 की चयन सूची

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
0A *#	अजाज अहमद भट्ट	15.05.1954
1.	जावेद अहमद इंद्राबी	20.02.1958
2.	जाहूर अहमद जन	17.11.1956
3.	अब्दुल राशिद काकरू	11.01.1953

*क्र.सं. 0ए में दिया गया नाम राज्य सरकार द्वारा सत्य निष्पक्ष प्रमाण-पत्र दिए जाने के अध्यक्षीन अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

#क्र.सं. 0ए में दिया गया नाम भारतीय वन सेवा प्रोन्नति विनियम के विनियम 5(4) के द्वितीय परंतुक के अनुसार सूची में शामिल किया गया है।

2008 की चयन सूची

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
0A *#	अजाज अहमद भट्ट	15.05.1954
1.	गुलाम अहमद मलिक	20.04.1954

*क्र.सं. 0ए में दिया गया नाम राज्य सरकार द्वारा सत्य निष्पक्ष प्रमाण-पत्र दिए जाने के अध्यक्षीन अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

#क्र.सं. 0ए में दिया गया नाम भारतीय वन सेवा प्रोन्नति विनियम के विनियम 5(4) के द्वितीय परंतुक के अनुसार सूची में शामिल किया गया है।

2009 की चयन सूची

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
0A *#	अजाज अहमद भट्ट	15.05.1954
1.	पुष्कर नाथ पंडित	18.09.1955
2.#	सैयद अल्लाफ-उर-रहमान	17.08.1957
3.	अली मोहम्मद डार	15.12.1958
4.	अब्दुल राशिद मीर	24.01.1957

*क्र.सं. 0ए और क्र. सं. 2 में दिया गए नामों को राज्य सरकार द्वारा सत्य निष्ठा प्रमाण-पत्र के दिए जाने अध्याधीन अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

#क्र.सं. 0ए में दिया गया नाम भारतीय वन सेवा प्रोन्नति विनियम के विनियम 5(4) के द्वितीय परंतुक के अनुसार सूची में शामिल किया गया है।

विवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जनवरी 2012

सं. ए-19011/01/2012-आईएफएस-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा, जम्मू और कश्मीर संवर्ग के 1987 बैच के अधिकारी, डॉ. मोहित गेरा, आईएफएस को 4 जनवरी, 2012 की पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पीबी-4 + रु. 8,900/- (जीपी) के वेतन मान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में अपर प्राध्यापक के पद पर पाँच वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो नियुक्त करते हैं।

ओ. पी. जोशी, अवर सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2012

सं. 12016/01/2010-आईएफएस-I--राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम (सीएसएस-एमओईएफ) के अंतर्गत आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के निम्नलिखित पदों को शामिल करते हैं :--

क्र. सं.	पद के नाम	वेतनमान
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएमपीबी	रु. 10,000/- की ग्रेड पे सहित पीबी-4
2.	निदेशक (तकनीकी)- व उप सीईओ	रु. 8,700/- की ग्रेड पे सहित पीबी-4

ओ. पी. जोशी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 फरवरी 2012

सं. 6-1/2011-एफ ई--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून में 5,400/- रु. की ग्रेड पे सहित पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.) में सहायक निदेशक के पद पर नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार, नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्यग्रहण की तिथि	कार्यभार ग्रहण का कार्यालय
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	24.11.2011 (अपराह्न)	एफएसआई, देहरादून (मुख्यालय)
2.	श्री ए. के. सक्सेना	24.11.2011 (अपराह्न)	एफएसआई, देहरादून (मुख्यालय)
3.	श्री हरपाल सिंह	24.11.2011 (अपराह्न)	एफएसआई, देहरादून (मुख्यालय)
4.	श्री एस. सी. थपलियाल	24.11.2011 (अपराह्न)	एफएसआई, देहरादून (मुख्यालय)
5.	श्री अनिल बाइला	25.11.2011 (पूर्वाह्न)	एफएसआई, सीजेड, नागपुर
6.	श्री के. एस. रेड्डी	02.12.2011 (अपराह्न)	एफएसआई, एसजेड, बंगलौर

2. उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति माननीय सीएटी, इलाहाबाद पीठ में ओ.ए. सं. 548/2003 (श्री एस. पी. नौटियाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) के निर्णय के अध्याधीन होगी।

मालती रावत, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. ए-12025/163/2009-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अब्बा बच्चन को 28 जून, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/- (ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करती हैं। डॉ. अब्बा बच्चन को श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. अब्बा बच्चन नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 9 मार्च 2012

सं. ए-12025/49/2008-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रामेश्वर सोरोखाइबम को 18 मई, 2009

के अपराह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- + 5,400/- रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करती हैं। डॉ. रामेश्वर सोरोखाइबम को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/27/2009-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रजनीश कुमार को 07 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- + 5,400/- रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करती हैं। डॉ. रजनीश कुमार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. ए-12025/55/2011-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. संगीता पाहुजा सिंघवाणी को दिनांक 08 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण उप-संवर्ग में पैथोलॉजी की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/56/2011-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. शिप्रा अग्रवाल को दिनांक 01 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण उप-संवर्ग में पैथोलॉजी की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/26/2010-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. शाहिना बानो को दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में विकिरण निदान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 7 मार्च 2012

सं. ए-12025/31/2011-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. आशीष जयमन को दिनांक 16.03.2011

के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में ऑर्थोपेडिक सर्जरी की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2012

सं. ए-38013/04/2011-प्रशा.-I--स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के श्री सुरेश कुमार कपूर, अनुभाग अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2011 को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 12 मार्च 2012

सं. ए-38013/07/2011-प्रशा.-I--स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के श्री बलराम प्रसाद, अनुभाग अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2012 को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-38013/08/2011-प्रशा.-I--स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की श्रीमती ललिता ऐलावादी, निजी सचिव, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2012 को सरकारी सेवा से निवृत्त हुई।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक (प्रशा.)

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 06 मार्च 2012

सं. 3-5/2012-मा.(प्रशा.)--कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग एतद्वारा केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरी परीक्षण संस्थान, कोचीन में निम्नलिखित समूह "बी" और समूह "सी" पदों को निम्न में प्रत्येक पद के सामने लिखी पदनाम के अनुसार पुनः नामित करती हैं :--

क्र. सं.	पदनाम	पुनः नामित पद के नाम	पुनः नामन/विलय के पश्चात पदों की संख्या
1.	जूनियर स्टेनोग्राफर	स्टेनोग्राफर ग्रेड-II	01
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-II	स्टेनोग्राफर ग्रेड-I	01

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2012

सं. ए-19011/2/91-एन.ए.--राष्ट्रपति, श्री जे. एच. पनवाल, नियमित तकनीकी सलाहकार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड में 7,600/- रुपये ग्रेड पे सहित रुपये 15,600--39,100/- (पे-बैंड) के वेतनमान में दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि तक के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त तकनीकी सलाहकार (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

मनोज कुमार, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 मार्च 2012

सं. ए-22012/04/2009-स्था. II--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 31.05.2011 के कार्यालय आदेश सं. 5/18/2010-ओ. एल.(एस) तथा दिनांक 23.01.2012 के सं. 5/5/2011-ओ.एल.(एस) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सहायक निदेशक के पद पर तदर्थ पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप श्रीमती अरुणा वोहरा, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग को 30 जनवरी, 2012 के पूर्वाह्न से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति एक वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगी।

उत्तम प्रकाश, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. ए-32014/1/2010-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/3/2011-सीएस-I (एस) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की नियमित सहायक श्रीमति मीना वत्स को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-2 : 9,300--34,800/- रु. तथा ग्रेड वेतन 4,800/- रु. में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधधीन तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :-

(i) तदर्थ नियुक्ति के फलस्वरूप नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने का अथवा नियमित नियुक्ति हेतु अनुभाग अधिकारियों की चयनित सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा;

(ii) तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी जब तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी वरिष्ठता कोटे के माध्यम से अथवा सीमित

विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो जाते। यदि तदर्थ नियुक्ति प्राप्तकर्ता अभ्यर्थी इन दोनों श्रेणियों में नियमित नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त नहीं करते तो उन्हें नियमित अनुभाग अधिकारी के ड्यूटी ज्वाइन करने की तारीख से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवंटित संबद्ध संवर्ग यूनिट में सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

लुकास एल. कामसुआन, उप सचिव

सं. ए-32014/1/2010-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/3/2011-सीएस-I (एस) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री सुनील भाटिया को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में दिनांक 29 फरवरी, (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-2 : 9,300--34,800/- रु. तथा ग्रेड वेतन 4,800/- रु. में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधधीन तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :-

(i) तदर्थ नियुक्ति के फलस्वरूप नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने का अथवा नियमित नियुक्ति हेतु अनुभाग अधिकारियों की चयनित सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा;

(ii) तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी जब तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी वरिष्ठता कोटे के माध्यम से अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो जाते। यदि तदर्थ नियुक्ति प्राप्तकर्ता अभ्यर्थी इन दोनों श्रेणियों में नियमित नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त नहीं करते तो उन्हें नियमित अनुभाग अधिकारी के ड्यूटी ज्वाइन करने की तारीख से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवंटित संबद्ध संवर्ग यूनिट में सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

लुकास एल. कामसुआन, उप सचिव

दिनांक 09 मार्च 2012

सं. ए-22012/2/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 फरवरी, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/21/2011-ईओ (एमएम-I) के अनुसरण में, मणिपुर में वन संरक्षक (प्रशा. एवं नियोजन) श्री अनुराग वाजपेयी, भा.व.से. (एमटी : 94) को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वेतन बैंड-4 (37,400-67,000 रु. एवं ग्रेड वेतन 8,700/- रु.) में निदेशक के रूप में दिनांक 09 मार्च, 2012 (पूर्वा.) से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अग्रिम आदेशों तक के लिए, जो भी पहले हो, नियुक्त करती हैं।

लुकास एल. कामसुआन, उप सचिव

सं. ए-32014/1/2010-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08 फरवरी 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2011-

सीएस-1 (एस) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की नियमित सहायक श्री पी. सी. शर्मा को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में दिनांक 01 मार्च 2012 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-2 : 9,300--34,800/- रु. तथा ग्रेड वेतन 4,800/- रु. में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :--

(i) तदर्थ नियुक्ति के फलस्वरूप नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने का अथवा नियमित नियुक्ति हेतु अनुभाग अधिकारियों की चयनित सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा;

(ii) तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी जब तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी वरिष्ठता कोटे के माध्यम से अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो जाते। यदि तदर्थ नियुक्ति प्राप्तकर्ता अभ्यर्थी इन दोनों श्रेणियों में नियमित नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त नहीं करते तो उन्हें नियमित अनुभाग अधिकारी के इयूटी ज्वाइन करने की तारीख से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवंटित संबद्ध संवर्ग यूनिट में सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

लुकास एल. कामसुआन, उप सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. ई.(जी.पी.)2008/3/8--इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.02.2011, जिसके द्वारा भारतीय रेल के यातायात सेवा (आई.आर.टी.एस.) के ग्रुप 'ए'/कनिष्ठ वेतनमान के 2009-10 के पैनेल की घोषणा की गई थी, के आंशिक आशोधन में, श्री जगदीश प्रसाद (अ.जा.) का नाम, जो कि मध्य रेलवे के पैनेल में अ.जा. की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत करते हुए, श्री ए. के. तिवारी के नीचे तथा श्री ई. जी. सदावर्ते (अ.ज.जा.) के ऊपर रखे गये थे, अब श्री जे. टी. बोकड़े (अ.ज.जा.) के नीचे और ए. के. तिवारी के ऊपर पड़ा जाए।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 1 मार्च 2012

सं. ईआरबी-1/2009/2/34--श्री प्रमोद शर्मा, एसजी/भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा की वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (पे बैंड-4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 10,000/-) में पदोन्नति होने पर उन्हें 14.02.2012 के पूर्वाह्न से सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 2 मार्च 2012

सं. ईआरबी-1/2011/2/32--श्री के. कृष्णन, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के निदेशक ग्रेड के अधिकारी को 01.02.2012 के पूर्वाह्न से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 10,000/- का पे बैंड-4) में पदोन्नत किया गया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 6 मार्च 2012

सं. ई(ओ)-III-2012/आरएन/16--श्री वी. के. शर्मा (जन्म तिथि 12.12.53, डीआईटीएस : 30.08.95), भारतीय रेल यातायात सेवा के सेलेशन ग्रेड के अधिकारी का क्रिस में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 15.02.2012 से रेलवे सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 7 मार्च 2012

सं. ईआरबी-1/2011/2/51--राष्ट्रपति जी, श्री आर. रामानाथन, आईआरएसई, सलाहकार (सिविल इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड को 27.02.2012 के अपराह्न से ग्रेड रु. 75,500--80,000/- में पदोन्नत होने पर अपर सदस्य (सिविल इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2011/2/65--राष्ट्रपति जी, श्री राजेन्द्र कश्यप, एचएजी/आईआरएस, सलाहकार (बजट), रेलवे बोर्ड को 27.02.2012 के पूर्वाह्न से ग्रेड रु. 75,500--80,000/- में पदोन्नत होने पर अपर सदस्य (बजट), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. ए-32022/1/2011-ई-1--राष्ट्रपति, श्रीमती शशि बाला, कनिष्ठ अन्वेषक की नियमित आधार पर आर्थिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,600/- ग्रेड पे (समूह 'ख' राजपत्रित) में दिनांक 14.02.2012 (पूर्वाह्न) से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में आर्थिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. 03/2012-मि.सं.ए-32013/09/2011-प्रशा.एक--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा के सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. नाम सं.	पद ग्रहण करने की तिथि
1. एन. एस. मलिनी	30.12.2011
2. ए. केशवन	30.12.2011

2. यह अधिकारी पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

मधुकर सूद, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2012

सं. 3/12 (फा.सं. 3/4/2011-स्थापना-I)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'ए') सेवा के श्री नागेश्वर प्रसाद, कनिष्ठ टाईम स्केल अधिकारी (सहायक निदेशक/सहायक अधिशासी अभियन्ता) को, दिनांक 20.12.2011 (पूर्वाह्न) से उसी सेवा में, पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- (संशोधित वेतनमान रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) में नियमित रूप से पदोन्नति पर वरिष्ठ टाईम स्केल (उप. निदेशक/अधिशासी अभियन्ता) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2012

सं. ए-12025/5/2006-आईआईएस (खण्ड-III)--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2007 (अनुपूरक सूची) के आधार पर श्री जे. कामराज (रैंक सं. 729) को दिनांक 11.11.2011 (पूर्वाह्न) से 5,400/- रु. ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड में (8,000-275-13,500/- रु. का संशोधन-पूर्व वेतनमान) भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती है।

2. श्री जे. कामराज, भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों के लिए परिवीक्षा-अवधि पर रहेंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (समाचार) के पद पर नियुक्त किया गया है।

नीरज कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/5/2006-आईआईएस (खण्ड-III)--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2007 (अनुपूरक सूची) के आधार पर श्री निशांत कुमार ओझा (रैंक सं. 698) को दिनांक 16.11.2011 (पूर्वाह्न) से 5,400/- रु. ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड में (8,000-275-13,500/- रु. का संशोधन-पूर्व वेतनमान) भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती है।

2. श्री निशांत कुमार ओझा, भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों के लिए परिवीक्षा-अवधि पर रहेंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (समाचार) के पद पर नियुक्त किया गया है।

नीरज कुमार, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2012

सं. ए-22011/1/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, सुश्री स्वीटी कर्ता राम, केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारी को शहरी विकास मंत्रालय में मौजूदा रिक्त पद पर दिनांक 17.02.2012 (पूर्वाह्न) से उप वित्तीय सलाहकार (निदेशक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2012

सं. ए-19011/1/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री प्रदीप शर्मा को सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर 17 फरवरी, 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 29th February 2012

No. A. 22011/1/2011-PME—Consequent upon his selection to the post of Director in Mahatma Gandhi Institute of Cultural Cooperation (MGICC), High Commission of India, Port of Spain, Trinidad & Tobago, Shri Jagdish Prasad Arya, Joint Director (OL), is relieved of his duties from Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 29th February, 2012.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 6th March 2012

No. A. 22012/02/2012-PMA—The President is pleased to appoint Shri Vikram Misri, IFS (1989) as Joint Secretary in the Prime Minister's Office w.e.f. the afternoon of 6th March, 2012 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A. 22012/02/2012-PMA—Consequent upon his appointment as High Commissioner of India to Bangladesh, Shri Pankaj Saran, IFS (1982) has relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 6th March 2012.

R. MYTHILI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 5th March 2012

No. RS. 3/1(3)/2012/12-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Mukul Pande, Director in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Joint Secretary in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- plus usual allowances as admissible under the rules, on ad hoc basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 2nd March 2012 and until further orders.

2. Shri P. P. K. Ramacharyulu, who was earlier appointed to officiate as Joint Secretary on ad hoc basis vide Notification No. RS. 3/1(3)/2011/54-Perl. dated 15th July 2011, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 2nd March 2012 and until further orders.

3. The service rendered on ad hoc basis by the above mentioned individuals in the grade of Joint Secretary will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 12th March 2012

No. RS. 3/1(1)/2012/15-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Anil Kumar Gandhi, Joint Director in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Director in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- plus usual allowances as admissible under the rules, on ad hoc basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 9th March 2012 and until further orders.

2. Shri Surendra Kumar Tripathi, who was earlier appointed to officiate as Director on ad hoc basis vide Notification No. RS. 3/1 (1)/2010/112-Perl. dated 16th November 2010, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 9th March 2012 and until further orders.

3. The service rendered on ad hoc basis by the above mentioned individuals in the grade of Director will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 29th February 2012

No. 5/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders:—

Sl. No.	Name	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.	
1.	K. J. Muraidhara	Scientist/Engineer-SD
2.	K. Srinivasamurthy	Scientist/Engineer-SE
3.	D. P. Sarma	Scientist/Engineer-SG
4.	P. Prakash	Scientist/Engineer-SF
5.	S. M. Muniraja	Scientist/Engineer-SD
6.	Rajeshwari P.S.	Scientist/Engineer-SF
7.	H. S. Manjunatha	Scientist/Engineer-SD
8.	M. Neelavathy	Scientist/Engineer-SG
9.	Subrahmanya	Scientist/Engineer-SE
10.	Devadas Shenoy Y.	Scientist/Engineer-SG
11.	L. Suvarna	Scientist/Engineer-SG
12.	S. Ganesan	Scientist/Engineer-SG

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of dates mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Sandhya Yogi	01.08.2011
2.	Abdul Hafeez Syed	01.08.2011
3.	H.C. Shashidhara	01.08.2011
4.	Ambati Janardhana Reddy	01.08.2011
5.	Hussen Basha Khanubhai	01.08.2011
6.	B. Sandhya Reddy	02.08.2011
7.	Payal Agarwal	02.08.2011
8.	Balakrushna Maharana	03.08.2011
9.	Thota Srikanth	03.08.2011
10.	Prabhu C.	03.08.2011
11.	Thameemunnisha M.	03.08.2011
12.	Malaya Ranjan Satapathy	03.08.2011
13.	Kavitha. S.	03.08.2011
14.	Kalasagar Varma Kandukuri	03.08.2011
15.	M. V. Chandrasekhar	03.08.2011
16.	V.S. Baswanth Oruganti	03.08.2011
17.	Maria Shalini V.	03.08.2011
18.	Mohd. Faizuddin Faruqui M.A.F.	03.08.2011
19.	S. Sathish Kumar	03.08.2011
20.	G. Janardhana Reddy	03.08.2011
21.	Santhosh Basavaraju	03.08.2011
22.	I. Prasanna Kumar	04.08.2011
23.	Shiv Aasheesh Singh T.	04.08.2011
24.	Chandraprabha Krishnaswamy	08.08.2011
25.	Mohammad Hasan	08.08.2011
26.	Surya Ratna Prakash Dumpa	08.08.2011
27.	Ravi Prakash Atreya	08.08.2011
28.	Mandeep Kiran	08.08.2011
29.	Shantanu Somvanshi	08.08.2011
30.	Kandepi Radhika	08.08.2011

1	2	3
31.	Saritha Kumari T.R.	08.08.2011
32.	Ganesha. K.	08.08.2011
33.	Kaitha Rajaiah	08.08.2011
34.	Umesh Swami	08.08.2011
35.	Kalpana Samal	08.08.2011
36.	Aravindram P.	08.08.2011
37.	Anoop S.	08.08.2011
38.	Bijoy Raha	09.08.2011
39.	Bhavna Sharma	09.08.2011
40.	Manish Verma	09.08.2011
41.	Dr. Arjun Dey	09.08.2011
42.	Shibu Saha	09.08.2011
43.	Naresh Kumar	09.08.2011
44.	Indranil Som	09.08.2011
45.	Sathish Kumar P.	17.08.2011
46.	V.S. Ammannarao Seepana	18.08.2011
47.	Rahul Kumar	22.08.2011
48.	Pradeep Kumar	29.08.2011
49.	Venkata Sita Raman Puram	02.09.2011
50.	Vamsi Krishna Velidi	05.09.2011
51.	Smiti Maini	09.09.2011
52.	Soumya J.	14.09.2011
53.	Monika Mahajan	14.09.2011
54.	V. Hari Rohit	21.09.2011
55.	Aayush Kejriwal	21.09.2011
56.	Lalji Chandra	22.09.2011
57.	Ankit Kumar Singh	23.09.2011
58.	Parag Vijayraj Pathak	23.09.2011
59.	Vineeth Joen Alexie D' souza	03.10.2011

N. PATTABHI RAMAN Under Secy.

No. 5/1(2)/2012-I—Consequent on attaining the age of superannuation the following Scientists/Engineers and

Officers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

Sl. Name No.	Post	Date of relief
Shri/Smt./Kum.		
1. S. Ramaswamy	Scientist/Engineer-H	31.08.2011
2. H. Bhojaraj	Scientist/Engineer-H	31.08.2011
3. Prema Haridas	Scientist/Engineer-SF	30.09.2011
4. Rama Krishna Prasad	Scientist/Engineer-SE	30.09.2011
5. D. G. Rajanna	Scientist/Engineer-SD	30.09.2011
6. K. T. Ramaprasad	Scientist/Engineer-SG	31.10.2011
7. M. Sudhakar	Scientist/Engineer-G	30.11.2011
8. K. S. P. Subudhi	Scientist/Engineer-SE	30.11.2011
9. G. A. Kumar	Senior Head Purchase and Stores	30.11.2011
10. R. Ajit Kumar	Scientist/Engineer-SE	30.11.2011

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2012-I—The President is pleased to accept the the resignation from service of the following Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of dates mentioned against each :—

Sl. Name No.	Date of Relief
Shri/Smt./Kum.	
1. Vishwa Prakash A.	19.07.2011
2. Rissen Alfonso Joseph	23.08.2011

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 2nd March 2012

No. 193/22/12/2010(TKD)—In supersession of the Commission's Notification of even number dated 11.01.2011, Shri Tapan Kumar Datta, Section Officer in the Election Commission of India, retired from service w.e.f. the afternoon of 28.02.2011.

AJOY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, 27th February 2012

No. A. 12025/2/2012-Admn.I(L.D.)—On the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri Y. Srinivasa Rao, Superintendent (Legal) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Assistant Legislative Counsel (Grade IV of Indian Legal Service) in the Pay Scale of PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the afternoon of 24th February, 2012 and until further orders.

2. Shri Y. Srinivasa Rao, Assistant Legislative Counsels (Grade IV of Indian Legal Service) will be on probation for a period of two years with effect from the date of his appointment to the post.

SANJAY SINGH,
Jt. Secy. and Legislative Counsel (Admn.)

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 20th September 2011

No. A-32013/07/2010-Admn.IV(LA)—The President is pleased to appoint Smt. Mumtaz Jahan, a regular Assistant Director (OL) presently working as Deputy Director (OL) on ad hoc basis, as Deputy Director (OL) on regular basis in this Department in PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 01.07.2010 in pursuance of Department of Official Language's Order No. 5/8/2010-OL(S) dated 14.02.2011 and 02.05.2011.

ASHA SOTA, Under Secy.

New Delhi, the 29th February 2012

No. A-38012/07/2011-Admn.IV(LA)—On attaining the age of superannuation, Smt. Jasbir Bedi, Principal Private Secretary, retires from Government Service with effect from the afternoon of 29th February, 2012.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 29th February 2012

No. 14046/273/2002-UTS-II—The President is pleased to cancel the notification of even number dated 5th April, 2010 vide which Shri A. A. Siddiqui, Junior Administrative Grade Officer of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands,

Lakshadweep, Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli Police Service (DANIPS) was retired on Medical Grounds, the Shri A. A. Siddiqui will be treated as in Government Service unless & until further orders.

A. K. DAS, Under Secy.

New Delhi, the 6th March 2012

CORRIGENDUM

No. 14011/23/2011-IPS. I—In supersession of Notification No. I-14011/23/2011-IPS. I (II) dated 28.12.2011 the Select Lists for the years 2008 A and 2009 may be read as follows :—

Select List 2008-A

Sl. No.	Name	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.	S. Surendran	20.05.1961
2.	A. V. George	24.03.1962
3.	S. Sasikumar	30.05.1956

Select List -2009

Sl. No.	Name	Date of Birth
	Shri V. C. Mohanan	30.11.1956

2. The aforesaid appointments will be subject to the result of the writ petition No. 2734/2011 pending before the Hon'ble High Court of Kerala at Ernakulam.

3. The Notification No. I-14011/23/2011-IPS. I (II) dated 18.01.2012 is hereby withdrawn.

BALDEV RAJ, Under Secy.

No. I-14011/20/2011-IPS. I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulations 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 28.02.2012, approved the year-wise Select Lists of the years 2008-A and 2009 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 11.11.2011, containing the names of the following State Police Service Officers of Maharashtra, towards filling up 3 and 4 total 7 substantive vacancies during the year 2012 in the IPS of Maharashtra Cadre :—

Select List 2008-A

Sl. No.	Name	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.#	P. B. Sawant	25.01.1962
2.	M. K. Bhosale	16.06.1962
3.	P. V. Deshpande	19.10.1960

#The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate/clearance in criminal proceeding by the State Government.

Select List-2009

Sl. No.	Name	Date of Birth
(Smt./Shri)		
0A#@	P. B. Sawant	25.01.1962
1.	M. B. Tambde	07.06.1961
2.	S. R. Dighavkar	27.09.1958
3.	J. V. Jadhav	02.09.1964
4.	A. R. Shinde	15.07.1965

#The name at Sl. No. 0A has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate/clearance in criminal proceeding by the State Government.

@The name at Sl. No. 0A has been included in the list in addition to the normal size of the Select List in pursuance to 2nd proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

BALDEV RAJ, Under Secy.

No. I-14011/20/2011-IPS. I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Maharashtra Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Maharashtra Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2008-A

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.	M. K. Bhosale	16.06.1962
2.	P. V. Deshpande	19.10.1960

Select List-2009

(Smt./Shri)		
1.	M. B. Tambde	07.06.1961
2.	S. R. Dighavkar	27.09.1958
3.	J. V. Jadhav	02.09.1964
4.	A. R. Shinde	15.07.1965

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

BALDEV RAJ, Under Secy.

The 13th March 2012

No. I-14011/19/2011-IPS. I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulations 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 23.02.2012, approved the year-wise Select Lists of 2009 and 2010 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 28.12.2011, containing the names of the following State Police Service Officers of Tamil Nadu Police Service, towards filling up 3 and 9 substantive vacancies respectively in the Tamil Nadu Cadre of the Indian Police Service :—

Select List 2009

Sl. No.	Name	Date of Birth
(S/Smt./Shri)		
1.	G. Sampath Kumar	06.05.1963
2.	Z. Annie Vijaya	18.11.1969
3.	M. Sathyapriya	07.02.1973

Select List 2010

1	2	3
(S/Smt./Shri)		
1.	S. V. Kuruppasamy	15.06.1956
2.	S. Mallika	14.03.1969
3.	B. Shamoondeswari	01.05.1974
4.	S. Lakshmi	18.02.1972
5.	S. Rajeswari	15.09.1971
6.	M. Pandian	27.03.1963

1	2	3
7.	S. Rajendran	25.04.1967
8.	M. S. Muthusamy	28.02.1964
9.	N. M. Mayilvahanan	16.05.1966

2. The aforementioned Select List will be subject to the final outcome of SLP No. 2459/2006 (titled T. Venmathi & others versus State of Tamil Nadu & others).

BALDEV RAJ, Under Secy.

No. I-14011/19/2011-IPS. I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Tamil Nadu Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Tamil Nadu under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2009

Sl. No.	Name	Date of Birth
(S/Smt./Shri)		
1.	G. Sampath Kumar	06.05.1963
2.	Z. Annie Vijaya	18.11.1969
3.	M. Sathyapriya	07.02.1973

Select List 2010

(S/Smt./Shri)		
1.	S. V. Kuruppasamy	15.06.1956
2.	S. Mallika	14.03.1969
3.	B. Shamoondeswari	01.05.1974
4.	S. Lakshmi	18.02.1972
5.	S. Rajeswari	15.09.1971
6.	M. Pandian	27.03.1963
7.	S. Rajendran	25.04.1967
8.	M. S. Muthusamy	28.02.1964
9.	N. M. Mayilvahanan	16.05.1966

2. The aforementioned appointments will be subject to the final outcome of SLP No. 2459/2006 (titled T. Venmathi & others versus State of Tamil Nadu & others).

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi-110001, the 12th March 2012

No. I-18011/03/2012/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Karnataka with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Date of Confirmation
(S/Shri)		
1.	Anupam Agrawal, IPS (KTK : 2008)	01.09.2010
2.	Ram Niwas Sepat, IPS (KTK : 2008)	01.09.2010
3.	Boralingaiah M.B., IPS (KTK : 2008)	22.12.2010
4.	Ajay Hilori, IPS (KTK : 2008)	01.09.2010
5.	Smt. Rohini Katoch, IPS (KTK : 2008)	22.12.2010

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 1st March 2012

CORRIGENDUM

No. 14015/03/2011-AIS(I)—In the Notification No. 14015/03/2011-AIS (I) A and No. 14015/03/2011-AIS (I)-B dated 10th February 2012 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training), the name of the officer at Sl. No. 07 in Select List of 2008A, may be read as “Shri Imdadul Haque” in place of “Shri Imadul Haque” and the name of the officer at Sl. No. 03 in the Select List of 2009, may be read as “Shri Ramesh Ch. Jain” in place of “Shri Ramesh Ch. Jain”.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/15/2011-AIS. (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service

(Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select Lists of State Civil Service officers of Manipur containing the following names prepared on 22nd December 2011 under Regulation 5(5) and approved on 10.02.2012, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Joint Manipur-Tripura (Manipur Segment) under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2009-A (Against the vacancies of 2009) and Select List of 2010 (Against the vacancies of 2010) :—

Select List of 2009-A (Against vacancies of 2009)

Sl. No.	Name	Date of Birth
(S/Shri)		
1.	R. H. Gonmei (ST)	01.03.1955
2.	Th. Gopen Meitei	01.03.1960

Select List of 2010 (Against vacancies of 2010)

(S/Shri)		
1.	H. Gyan Prakash	29.07.1966
2.	Kh. Raghumani Singh	01.02.1963
3.	T. Ranjit Singh	01.02.1964
4.*	Athem Muivah (ST)	17.03.1959
5.	Maranchan Luikham (ST)	14.11.1958
6.	M. Harekrishna	03.12.1964
7.	M. Joy Singh	01.01.1965
8.	M. Yaiskul Meitei	10.04.1964
9.	Bobby Waikhom	12.10.1964
10.	Smt. Limneikim Singson (ST)	30.06.1958
11.	Lunminthang Haokip (ST)	01.03.1958
12.	S. Minlianhang Vaiphei (ST)	13.07.1956

*The name at S. No. 4 in the list has been included provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Govt.

2. The recommendations of the Selection Committee are subject to the outcome of W/A 494 of 2002 arising out of C.R. No. 201 of 1997 filed in Hon'ble High Court of Guwahati.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/03/2011-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Manipur to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2009-A (against the vacancies of 2009) and Select List of 2010 (against the vacancies of 2010) on probation until further orders and to allocate them to the Joint Manipur-Tripura Cadre (Manipur Segment), under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2009-A (Against vacancies of 2009)

S. No.	Name
	S/Shri
1.	R. H. Gonmei (ST)
2.	Th. Gopen Meitei

Select List of 2010 (Against vacancies of 2010)

	S/Shri
1.	H. Gyan Prakash
2.	Kh. Raghumani Singh
3.	T. Ranjit Singh
4.	Maranchan Luikham (ST)
5.	M. Harekrishna
6.	M. Joy Singh
7.	M. Yaiskul Meitei
8.	Bobby Waikhom
9.	Smt. Limneikim Singson (ST)
10.	Lunminthang Ilaokip (ST)
11.	S. Minlianhang Vaiphei (ST)

2. The recommendations of the Selection Committee are subject to the outcome of W/A 494 of 2002 arising out of C.R. No. 201 of 1997 filed in Hon'ble High Court of Guwahati.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 6th March 2012

No. 13017/44/2011-AIS-I—In exercise of the power conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Assam, Meghalaya and Rajasthan, the Central Govt. hereby transfers Shri Inderjeet Singh, IAS (AM : 10) from Assam-Meghalaya cadre to Rajasthan cadre on the ground of marriage to Ms. Neha Giri, IAS (RJ : 10).

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th February 2012

No. Q/GA/576/1/2012—The Government of India has re-designated Cape Town Office of High Commission of India as Consulate General of India, Cape Town :—

Name of the Mission/Post	Date/Month/Year of re-designation
Consulate General of India, Cape Town	01st January 2011

2. All Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and the Administrations of all Union Territories are requested to ensure that the correspondence to the above Mission/Post is addressed "C/o Diplomatic Bag Section, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi".

AMIT S. TELANG, Under Secy.

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 1st March 2012

No. A-19011/5/2011-PA—Consequent on his attaining the age of superannuation, Shri M. Sathya Babu, Deputy Secretary in the Ministry of Overseas Indian Affairs, New Delhi retired from Government Service with effect from the afternoon of the 29th February, 2012.

NEHJAMANG SIMTE, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 30th December 2011

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 43 of 2011 (F. No. A-38012/27/2011-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of voluntary retirement of

Shri U. Rajaram, Deputy Commissioner of Customs, Chennai from Government Service with effect from 31.12.2011 (F.N.) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

R. K. SHARMA, Under Secy.

The 24th January 2012

No. 3 of 2012 (F. No. A-38012/28/2011-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of voluntary retirement of Shri H. M. Sachdev, Assistant Commissioner of Customs, (Preventive), Jamnagar with effect from 01.02.2012 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

R. K. SHARMA, Under Secy.

No. 04 of 2012 (F. No. A-39012/09/2011-Ad.II)—The President is pleased to accept the technical resignation tendered by Shri Vilas S. Bhoskar, Assistant Commissioner of Customs, NCH-Mumbai with effect from 02.12.2011 (AN) from the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise).

R. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 30th January 2012

No. 3/2012 (F. No. A-19013/32/2011-Ad.IA)—In pursuance to Department of Expenditure, CAS's O.M. No. A-12025/1/2008-CAS dated 23rd November, 2011 and DoP&T's O.M. No. 4/6/2011-CS.II (A) dated 25.10.2011, the President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar, Stenographer Grade 'C' (officiating as adhoc PS) of Ministry of Home Affairs as Steno Grade 'A&B' (Merged) (PS) on regular basis against the DE quota of CSSS for the SL Year, 2006, in the Department of Revenue, Ministry of Finance w.e.f. 16.11.2011 (F/N).

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

New Delhi, the 29th February 2012

No. 19 : (F. No. A-19011/5/2012-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Ms. Harmeet S. Singh, IRS (C&CE : 84) as Joint Secretary (COFEPOSA) under the Department of Revenue, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/-, for a period of five years with effect from 21.02.2012 (FN) and until further orders, whichever event takes place earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 1st March 2012

No. 20 : (F. No. A-38014/10/2011-Ad.I)—Shri S. C. Sachdeva, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section

Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 29.02.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 15th February 2012

No. A-22011/1/2012/Ad.IA—The President is pleased to appoint Shri Devendra Singh (IES : 86) as Additional Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 07.02.2012 (FN).

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 2nd March 2012

CORRIGENDUM

No. A-22011/1/2012/Admn.IA—In the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) dated 15th February, 2012 the Name "Shri Devendra Singh (IES : 86)" may be read as "Shri Devender Singh (IES : 86)". All other contents of the notification remain unchanged.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110011, the 1st March 2012

No. A-12011/10/2009-Ad.II—The President is pleased to appoint the following candidates to the Junior Time Scale (Group 'A') of Indian Corporate Law Service (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/-) from the date mentioned against their names :—

S. No.	Name	Date of appointment
	S/Sh./Ms./Smt.	
1.	Denning K. Babu	19.12.2011
2.	Sandeep Kumar Garg	19.12.2011
3.	Prashant Baliyan	19.12.2011
4.	Krishna Kant Upadhyay	19.12.2011
5.	Anu Singh	19.12.2011
6.	Anil Yadav	19.12.2011
7.	Tangadkar Deepika Kartik	29.12.2011
8.	Arun Prasad M.	19.12.2011
9.	Aman Gupta	19.12.2011
10.	Vivek H. P.	29.12.2011
11.	Shatrughan Chauhan	29.08.2011

2. The above appointment is subject to the terms and conditions mentioned in the appointment offer, appointment orders, corrigendum to offers/orders, recruitment rules and the rules of competent authorities.

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. A-12011/11/2008-Ad.II—The President is pleased to appoint the following candidates to the Junior Time Scale (Group 'A') of Indian Corporate Law Service (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/-) from the date mentioned against their names :—

S. No.	Name	Date of appointment
1	2	3
	S/Sh./Ms./Smt.	
1.	Imran Ahmad Siddiqui	29.08.2011
2.	Pattanshetti Ravi Subash	19.12.2011
3.	Shobhit Srivastava	19.12.2011
4.	Chauhan Yogini Dinkar	19.12.2011
5.	Shinde amol Bhagwan	19.12.2011
6.	Lata Sisodiya	19.12.2011
7.	Mukesh Kumar Soni	19.12.2011

2. The above appointment is subject to the terms and conditions mentioned in the appointment offer, appointment orders, corrigendum to offers/orders, recruitment rules and the rules of competent authorities.

R. K. PANDEY, Under Secy.

The 2nd March 2012

CORRIGENDUM

No. PFG (665)/96-Ad.II—Refer to notification No. PFG (541)/96-Admn. II..... dated 31st October, 2011 issued under Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Officer's name may be read as Shri P. C. Nanda Kumar, Deputy Director instead of Shri P. C. Nand Kumar, Deputy Director in the Office of Regional Director (South East Region), Ministry of Corporate Affairs, Hyderabad for the purpose of the said section 209-A.

R. K. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 5th March 2012

No. A-38013/1/2012-Cadre—On attaining the age of superannuation, the following officers of CSS Cadre of

Supply Division retires from Government service with effect from the date mentioned against their names :—

S No.	CSL No.	Name & Designation	Date of Birth	Date of superannuation
		S/Shri		
1.	4155	Ashim Bose, Dy. Secretary	03.02.1952	29.02.2012
2.	—	Ashwini Kumar Gupta, Section Officer	01.03.1952	29.02.2012

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 29th February 2012

No. 03/2012 F. No. 6/2528/2010/PEN/HRD-I-779—On attaining the age of superannuation Shri Jai Parkash, Joint Director General of Foreign Trade (CSS) in this Office stands retired from Government service with effect from 29.02.2012 (AN).

G. A. REDDY, Dy. Director General of Foreign Trade

No. 04/2012 F. No. 6/2356/2005/PEN/HRD-I-764—On attaining the age of superannuation Shri R. S. Bisht, Deputy Director General of Foreign Trade (CSS) in this Office stands retired from Government service with effect from 29.02.2012 (AN).

G. A. REDDY, Dy. Director General of Foreign Trade

The 1st March 2012

No. 05/2012 F. No. 6/2583/2011/PEN/HRD-I-749—Shri D. Dwirakanath, Deputy Director General of Foreign Trade (CSS) in this Office retired voluntarily from Government service with effect from 01.03.2012 (F/N).

G. A. REDDY, Dy. Director General of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 2nd March 2012

No. A-45011/04/2006/E.I—The President is pleased to appoint Shri Anuj Kumar, a regular Assistant of CSS cadre

in the Ministry of Minority Affairs, nominated to the CSS cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of commerce & Industry, on the basis of the results of the Section Officer's Grade Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2006, as Section Officer on regular basis for the select list year 2006 (Rank No. 16) with effect from 24.02.2012 until further orders :—

2. The appointment of Shri Anuj Kumar as Section Officer shall be subject to the outcome of the following court cases :—

- (i) OA No. 1083/2007, MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UoI in CAT, New Delhi;
- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A.K. Nandy & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi;
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi;
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi; and
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UoI & Ors. in CAT, New Delhi.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 28th February 2012

No. A-12011/2/2012-Estt.—In terms of Department of Official Language's O.O. No. 5/15/2011-OL(Service) dated 10th February, 2012, the President is pleased to appoint Smt. Shobhana Srivastava, Sr. Translator in the Ministry of Petroleum & Natural Gas as Assistant Director on adhoc basis in the Pay Band-3 [Rs. 15,600—39,100/-] + Grade Pay of Rs. 5,400/- for a period of one year w.e.f. for forenoon of 13.2.2012.

2. The appointment of Smt. Shobhana Srivastava to the grade of Assistant Director (OL) is purely on adhoc basis and shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of Assistant Director.

K. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 13th February 2012

No. A-19011/1/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Arun Agarwal, Indian Telecom Services (1991),

as Director in the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals w.e.f. the forenoon of 10th February, 2012 for a period of five years or until further orders.

R. K. KUREEL, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 6th March 2012

No. A-12025/7/2009-NTH (Estt.)—The President is pleased to appoint Shri Yogesh Singh to the post of Scientist SB (Electrical) in the National Test House, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 21.02.2012 F.N.)

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

New Delhi, the 9th March 2012

No. A-12011/4/2011-Estt.—In pursuance of the approval of appointments Committee of the Cabinet and in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby approves the continuation of the additional charge of the post of Chairman, Forward Markets Commission assigned to Shri Ramesh Abhishek, IAS (BH : 82), Member Forward Markets Commission, Mumbai, with effect from 1st February, 2012 to 08.07.2012 or until further order whichever is earlier.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 15th February 2012

No. 17013/07/2007-IFS.II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select List for promotion from State Forest Service of Jammu & Kashmir to the Indian Forest Service for the Select Lists 2006A, 2007, 2008 & 2009 prepared in the Selection Committee meeting held on 28.10.2011 containing the following names of the State Forest Service of Jammu & Kashmir towards filling up of promotion quota vacancies available in Jammu & Kashmir cadre of the Indian Forest Service :—

Select List of 2006A :

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
0A*.	Ajaz Ahmad Bhat	15.05.1954
1.	Gulzar Hussain Rangrez	15.01.1952

*The Name at S. No. 0A has been included provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. His inclusion is in addition to the size of the Select List.

Select List of 2007 :

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
0A*#.	Ajaz Ahmad Bhat	15.05.1954
1.	Javed Ahmad Indrabi	20.02.1958
2.	Zahoor Ahmad Jan	17.11.1956

*The name at S. No. 0A has been included provisionally subject to grant of integrity Certificate by the State Government.

#The name at S. No. 0A has been included in the list as per the second proviso to Regulation 5(4) of the IFS Promotion Regulations.

Select List of 2008 :

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
0A*.	Ajaz Ahmad Bhat	15.05.1954
1.	Ghulam Ahmad Malik	20.04.1954

*The Name at S. No. 0A has been included provisionally subject to grant of integrity Certificate by the State Government.

#The name at S. No. 0A has been included in the list as per the second proviso to Regulation 5(4) of the IFS Promotion Regulations.

Select List of 2009 :

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
0A*#.	Ajaz Ahmad Bhat	15.05.1954
1.	Pushkar Nath Pandita	18.09.1955
2#.	Syed Altaf-ur Rehman	17.08.1957
3.	Ali Mohammad Dar	15.12.1958
4.	Abdul Rashid Mir	24.01.1957

*The Name at S. No. 0A and S. No. 2 have been included provisionally subject to grant of integrity Certificate by the State Government.

#The name at S. No. 0A has been included in the list as per the second proviso to Regulation 5(4) of the IFS Promotion Regulations.

VIVEK SAXENA, Director

New Delhi-110003, the 27th January 2012

No. A.19011/1/2012-IFS-I—The President is pleased to appoint Dr. Mohit Gera, IFS, an officer belonging to 1987 batch of Indian Forest Service, Jammu & Kashmir Cadre, to the post of Additional Professor, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun in the Pay Scale of PB-4+ 8,900/- (G.P.) on central deputation w.e.f. the forenoon of 4th January, 2012 for a period of five years or till further orders, whichever is earlier.

O. P. JOSHI, Under Secy.

The 10th February 2012

No. 12016/01/2010-IFS.I—The President is pleased to include following posts of National Medicinal Plant Borad (NMPB) under the Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare under Central Staffing Scheme of Ministry of Environment & Forests (CSS-MoEF) with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the Post	Pay Scale
1.	Chief Executive Officer, NMPB	PB-4 with Grade Pay Rs. 10,000/-
2.	Director (Technical)-cum-Dy. CEO, NMPB	PB-4 with Grade Pay Rs. 8,700/-

O. P. JOSHI, Under Secy.

New Delhi-110003, the 27th February 2012

No. 6-1/2011-FE—The President is pleased to appoint the following Senior Technical Assistants to the post of Assistant Director in Forest Survey of India Dehradun under the Ministry of Environment & Forests in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- as detailed below :—

Sl. No.	Name	Date of joining	Office of joining
1	2	3	4
01.	Sh. Sanjay Kumar Aggarwal	24.11.2011 (AN)	FSI, Dehradun (HQ)

1	2	3	4
02.	Sh. A. K. Saxena	24.11.2011 (AN)	FSI, Dehradun (HQ)
03.	Sh. Harpal Singh	24.11.2011 (AN)	FSI, Dehradun (HQ)
04.	S. C. Thapliyal	24.11.2011 (AN)	FSI, Dehradun (HQ)
05.	Shri Anil Biala	25.11.2011 (FN)	FSI, CZ, Nagpur
06.	Shri K. S. Reddy	02.12.2011 (AN)	FSI, SZ Bangalore

2. The promotion of above officers would be subject to the outcome of OA No. 548/2003 (Shri S. P. Nautiyal & Others Vs. Union of India & Others) in the Hon'ble CAT, Allahabad Bench.

MALTI RAWAT, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 29th February 2012

No. A.12025/163/2009-CHS-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Abta Bachchan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of Pay of PB-3 (R. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 28.06.2010 until further orders. Dr. Abta Bachchan is posted as Medical Officer under Ministry of Labour and Employment, New Delhi. Dr. Abta Bachchan Shall be on probation for two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

The 9th March 2012

No. A.12025/49/2008-CHS-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rameshwar Sorokhaibam to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of Pay of Rs. PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from afternoon of the 18.05.2009 until further orders. Dr. Rameshwar Sorokhaibam is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme. Delhi.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A.12025/27/2009-CHS-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is

pleased to appoint Dr. Rajneesh Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of Pay of Rs. PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 07.07.2011 until further orders. Dr. Rajneesh Kumar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme Delhi.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

New Delhi-110108, 29th February 2012

No. A.12025/55/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sangeeta Pahuja Sindhwani, to the post of Assistant Professor in the speciality of Pathology in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 8th September, 2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A.12025/56/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shipra Agarwal, to the post of Assistant Professor in the speciality of Pathology in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 1st September, 2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A.12025/26/2010-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shahina Bano, to the post of Assistant Professor in the speciality of Radio-Diagnosis in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 4th October, 2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 7th March 2012

No. A.12025/31/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ashish Jaiman to the post of Assistant Professor in the speciality of Orthopaedics Surgery in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 16th March, 2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 9th March 2012

No. A-38013/4/2011-Admn.-I—Shri Suresh Kumar Kapoor, Section Officer of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31-12-2011.

R. K. KALRA, Dy. Director (Admn.)

The 12th March 2012

No. A-38013/7/2011-Admn.-I—Shri Balram Prasad, Section Officer of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31-01-2012.

R. K. KALRA, Dy. Director (Admn.)

No. A-38013/8/2011-Admn.-I—Smt. Lalita Ailawadi, Private Secretary of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31-01-2012.

R. K. KALRA, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES)

New Delhi, the 6th March 2012

No. 3-5/2012-Fy. Admn.—The following Group 'B' and Group 'C' posts of Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries are hereby re-designated as mentioned against each post :—

S. No.	Name of post	Name of re-designated post	No. of posts after merger/re-designation
1.	Junior Stenographer	Stenographer Grade II	01
2.	Stenographer Grade II	Stenographer Grade I	01

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 3rd January 2012

No. A-19011/2/91-NA—The President is pleased to appoint Shri J. H. Panwal, a regular Deputy Technical

Adviser, as Joint Technical Adviser (ad hoc) in the Food & Nutrition Board under the Ministry of Women & Child Development in the pay structure of Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from forenoon of 30th December 2011, for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

MANOJ KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 6th March 2012

No. A-22012/04/2009-Estt.II—In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language's Office Order No. 5/18/2010-OL(S) dated 31.5.2011 & No. 5/5/2011-OL(S) dated 23.01.2012, consequent on her promotion to the post of Assistant Director of the Central Secretariat Official Language Service on ad-hoc basis, the President is pleased to appoint Smt. Aruna Vohra, Senior Hindi Translator in the Ministry of Finance, Department of Financial Services as Assistant Director (Official Language), in the Ministry of Social Justice & Empowerment on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of the 30th January, 2012.

2. This ad-hoc appointment shall be valid for a period of one year or further orders whichever is earlier.

UTTAM PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 29th February 2012

No. A-32014/1/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/3/2011-CS I (S) dated 27th October, 2011. The President is pleased to appoint Ms. Meena Vats, a regular Assistant of Central Secretariat Service (CSS) as Section Officer of CSS in the Ministry of Minority Affairs, in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 29th February, 2012 (F/N) on ad-hoc basis subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;
- (ii) Ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from

the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by Department of Personnel & Training.

LUCAS L. KAMSUAN, Dy. Secy.

No. A-32014/1/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/3/2011-CS I (S) dated 27th October, 2011. The President is pleased to appoint Mr. Sunil Bhatia, a regular Assistant of Central Secretariat Service (CSS) as Section Officer of CSS in the Ministry of Minority Affairs, in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 29th February, 2012 (F/N) on ad-hoc basis subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;
- (ii) Ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by Department of Personnel & Training.

LUCAS L. KAMSUAN, Dy. Secy.

The 9th March 2012

No. A-22012/2/2006-Estt.—In pursuance of Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/21/2011-EO(MM-I) dated 23rd February, 2012, the President is pleased to appoint Shri Anurag Bajpai, IFS (MT:94) Conservator of Forests (Admn. & Planning), Manipur as Director in the Ministry of Minority Affairs, in the Pay Band (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- with effect from 9th March, 2012 (FN) for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

LUCAS L. KAMSUAN, Dy. Secy.

No. A-32014/1/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/5/2011-CS.I(S) dated

8th February, 2012, the President is pleased to appoint Shri P. C. Sharma, a regular Assistant of Central Secretariat Service (CSS) as Section Officer of CSS in the Ministry of Minority Affairs, in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 01st March, 2012 (F/N) on ad hoc basis subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade of CSS;
- (ii) Ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by the Department of Personnel & Training.

LUCAS L. KAMSUAN, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 29th February 2012

No. E(GP)2008/3/8—In partial modification of this Ministry's notification of even number dated 10.02.2011 declaring the 2009-10 panel of Group 'A'/Jr. Scale of IRTS, the name of Shri Jagdish Prasad (SC), promoted against SC vacancy in the panel of Central Railway, as appearing below Shri A. K. Tiwari and above Shri E. G. Sadavarte (ST), may instead be read as appearing below Shri J. T. Bokde (ST) and above Shri A. K. Tiwari.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 1st March 2012

No. ERB-I/2009/2/34—Shri Pramod Sharma, SG/IRSE, on promotion to Senior Administrative Grade (PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/-), is appointed as Officer on Special Duty to member Engineering, Railway Board with effect from forenoon of 14.02.2012.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 2nd March 2012

No. ERB-I/2011/2/32—Shri K. Krishnan, Director's Grade Officer of Railway Board Secretariat Service (RBSS) has been promoted to Senior Administrative Grade (Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/-), with effect from the forenoon of 01.02.2012.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 6th March 2012

No. E(O)III/2012/RN/16—Consequent upon his permanent absorption in CRIS, Shri V. K. Sharma (DoB : 12/12/53, DITS : 30/08/95), a Selection Grade Officer of the Indian Railway Traffic Service has resigned from Railway Service with effect from 15.02.2012.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 7th March 2012

No. ERB-I/2011/2/51—The President is pleased to appoint Shri R. Ramanathan, IRSE, Adviser (Civil Engineering) Railway Board as Additional Member (Civil Engineering), Railway Board on promotion to Grade of Rs. 75,500—80,000/- with effect from afternoon of 27.02.2012.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2011/2/65—The President is pleased to appoint Shri Rajendra Kashyap, HAG/IRAS, Adviser (Budget), Railway Board as Additional Member (Budget), Railway Board on promotion to Grade of Rs. 75,500—80,000/- with effect from forenoon of 27.02.2012.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 15th February 2012

No. A-32022/1/2011-E.I—On her regular promotion as Economic Officer in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/- (Group 'B' Gazetted) the President is pleased to appoint Smt. Shashi Bala, Junior Investigator in the Ministry of Road Transport & Highways as Economic Officer w.e.f. 14.02.2012 (Forenoon).

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 29th February 2012

No. 03/2012 (F. No. A-32013/09/2011-Adm.I)—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge of the post of AD-I/AEE
	S/Shri	
1.	N. S. Malini	30.12.2011
2.	A. Kesavan	30.12.2011

2. The officers will be on probation for a period of two years from the date of assuming the charge.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 27th February 2012

No. 3/2012 (F. No. 3/4/2011-Estt.I)—The President is pleased to appoint Shri Nageshwar Prasad, a Junior Time Scale Officer (Assistant Director/Assistant Executive Engineer) of the Central Water Engineering (Gr. 'A') Service on promotion to the Senior Time Scale (Deputy Director/Executive Engineer) of the same Service, in the pre-revised Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/- (Revised Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/-), on regular basis with effect from 20.12.2011 (FN) the date of assumption of the charge.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 27th February 2012

No. A- 12025/5/2006-IIS (Vol.III)/185—On the basis of the result of the Civil Services Examination 2007 (Supplementary List), the President is pleased to appoint Shri J. Kamraj (Rank No. 729) in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 5,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from 11.11.2011 (FN).

2. He will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Service Group 'A'.

3. He has been posted as Assistant Director (News), News Service Division : All India Radio, New Delhi until further orders.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

No. A- 12025/5/2006-IIS (Vol.III)/185—On the basis of the result of the Civil Services Examination 2007 (Supplementary List), the President is pleased to appoint Shri Nishant Kumar Ojha (Rank No. 698) in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from 16.11.2011 (FN).

2. He will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. He has been posted as Assistant Director (News), News Service Division : All India Radio, New Delhi until further orders.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th February 2012

No. A-22011/1/2012-Admn.I—The President is pleased to appoint Ms. Sweety Karta Ram, a Central Secretariat Service Officer as Deputy Financial Adviser (Director) in the Ministry of Urban Development with effect from 17.02.2012 (FN) against an existing vacancy.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 28th February 2012

No. A-19011/1/2012-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Sharma, a Senior Hindi Translator of the Central Secretariat Official Language Service to the post of Assistant Director (OL) on ad hoc basis with effect from the forenoon of 17th February, 2012 and until further orders.

PRADEEP GAUR, Under Secy.